

प्रेस नोट दिनांक-27.11.2020

(1). आज दिनांक 27.11.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा पुलिस लाइन्स में शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड के दौरान आरटीसी प्रभारी को निर्देशित किया गया कि 26 जनवरी को देखते हुये प्रशिक्षणाधीन रिक्लूट आरक्षियों की परेड में सुधार करवायें।

बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन्स का भ्रमण एवं निरीक्षण कर निम्न आदेश-निर्देश दिये गये:-

1. महोदय द्वारा परिवहन शाखा का निरीक्षण कर डायल 112 के दो पहिया, 04 पहिया वाहनों के हूटर बजवाकर एवं लाइट्स जलवाकर चैक किया गया, जिन वाहनों के हूटर एवं लाइट्स खराब पायी गयी उन्हें तत्काल प्रभाव से बनवाने के लिये प्रभारी परिवहन शाखा को निर्देशित किया गया।
2. विभिन्न थानों से डालय 112 के कर्मचारियों से समस्याएं पूंछी गयी।
3. प्रभारी डायल 112 को निर्देशित किया गया कि डायल 112 के कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश HRSM पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत किये जायें जिससे कर्मचारियों की अनावश्यक भागदौड़ न हो।
4. पुलिस लाइन्स में निर्माणाधीन 12 मंजलीय आवासी कालोनी का निरीक्षण कर ठेकेदार को हिदायत दी गयी कि खराब या घटिया क्वालिटी का मटेरियल न लगाया जाये।
5. जिलानियंत्रण-कक्ष का निरीक्षण कर स्टोर रूम में पड़े फालतू सामान को स्टॉक रजिस्टर से मिलान कराकर खाली करवाने हेतु प्रतिसार निरीक्षक नियंत्रण-कक्ष का निर्देशित किया गया।
6. प्रतिसार निरीक्षक नियंत्रण-कक्ष को निर्देशित किया गया कि नियंत्रण कक्ष में 02 कमरे डायल 112 के कार्यालय हेतु दिये जायें, जिससे डायल 112 का कार्यालय नियंत्रण-कक्ष में ही सम्पादित किया जा सके।
7. फील्ड यूनिट का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स को निर्देशित किया गया कि फील्ड यूनिट के स्टोर में रखे फालतू सामान का स्टॉक रजिस्टर से मिलान कराकर खाली करवाया जाये।
8. भोजनालय का निरीक्षण कर साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया।
9. सीपीसी कैन्टीन का भ्रमण किया गया।
10. क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण किया गया।

बाद पुलिस लाइन्स भ्रमण एवं निरीक्षण महोदय द्वारा प्रशिक्षणाधीन 184 रिक्लूट आरक्षियों के साथ सम्मेलन कर उन्हे ब्रीफ किया गया। महोदय द्वारा रिक्लूट आरक्षियों से समस्याएं पूंछी गयी। महोदय द्वारा रिक्लूट आरक्षियों से पूछा गया कि किस उद्देश्य से पुलिस विभाग आने के उद्देश्य के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। महोदय द्वारा विचार जाना गया कि विभाग में आने से पहले विभाग के सम्बन्ध में क्या सोचते थे और विभाग में आने के बाद क्या सोचते हैं। महोदय द्वारा रिक्लूट आरक्षियों को कम्युनिटी पुलिसिंग के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया गया कि जनता एवं पुलिस के बीच मित्रवत व्यहार बनाया जाये जिससे जनता का कोई भी व्यक्ति पुलिस को अपनी समस्या बताने से डरे नहीं। महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि यह ट्रेनिंग प्रशिक्षण आपकी नीव है इसलिये मन लगाकर प्रशिक्षण प्राप्त करें, अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करने से आप अपनी डियूटियां अच्छे से कर सकते हैं। विभाग में आने के बाद आपको अच्छे एवं बुरे लोग मिलेंगे जो आपको अच्छी एवं बुरी दोनों प्रकार की बातें सिखायेंगे किन्तु आपको सिर्फ अच्छी बातों का ही अनुसरण करना है। सम्मेलन के दौरान महोदय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रहे उस्तादों का परिचय लिया गया तथा उन्हे निर्देशित किया गया कि रिक्लूट्स को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री रामप्रकाश, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स श्री सुमेर सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, आरटीसी प्रभारी श्री हबीबुल्ला एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में प्रभावी पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में श्री

अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी व पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर चिन्हित मुकदमे में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। एपीओ श्री सिद्धार्थ आनन्द द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप अपर सत्र न्यायधीस(रेप केस एवं पोक्सो एक्ट) श्री प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 304/2018 धारा 376 भादवि0 व 06 पोक्सो एक्ट के आरोपित अभियुक्त श्रवण कुमार वर्मा पुत्र स्व0 भोला निवासी गोंडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को उपरोक्त धाराओं में दोष सिद्ध करते हुये दिनांक 26.11.2020 को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20000/- रुपये आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(3). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2050 थाना मऊ अंतर्गत दिनांक 27/11/2020 को समय 06:16 बजे इवेंट संख्या 0978 द्वारा घटनास्थल मऊ से कॉलर द्वारा सूचना दी गयी कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक इनोवा गाड़ी में एक परिवार के लोग अस्थियां लेकर ललितपुर से संगम प्रयागराज विसर्जन करने जा रहे थे तभी मऊ सुरौंदा गांव के पास गाड़ी चालक को नींद आ गई जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई जिससे गाड़ी में सवार 08 लोग घायल हो गये है। जिसमें 04 लोग गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों को एम्बुलेंस और पीआरवी वाहन द्वारा chc अस्पताल मऊ में भर्ती कराया गया है। मौके पर थाना पुलिस आ गई थी घटनास्थल थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया।

पीआरवी स्टाफ

सब कमांडर - c जुबैर अली

पायलट - c जयकरण यादव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 27.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैण्ड, शिवपुर तिराहा, बाजार रोड, आनन्दी माता मंदिर कस्बा मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में शिवनगर, महावीर नगर में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा सब्जीमण्डी में सब्जी बेच रही महिलाओं को एवं शहर में छात्राओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।